

[Print](#)

Computer Proficiency Certification Test

Notations :

- Options shown in **green** color and with  icon are correct.
- Options shown in **red** color and with  icon are incorrect.

Question Paper Name :

PwD REMINGTON GAIL 17th October 2021
Shift 2

Subject Name :

PwD Remington Gail

Creation Date :

2021-10-17 17:37:42

Duration :

30

Calculator :

None

Magnifying Glass Required? :

No

Ruler Required? :

No

Eraser Required? :

No

Scratch Pad Required? :

No

Rough Sketch/Notepad Required? :

No

Protractor Required? :

No

Show Watermark on Console? :

No

Highlighter :

No

Auto Save on Console? (SA type of questions will be always auto saved) :

Yes

Mock

Group Number :

1

Group Id :

2549892954

Group Maximum Duration :

10

Group Minimum Duration :

10

Show Attended Group? :

No

Edit Attended Group? :

No

Break time :

1

Mandatory Break time :

Yes

Group Marks :

0

Is this Group for Examiner? :

No

Hindi Mock

Section Id :

2549894594

Section Number :

1

Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional :	Mandatory
Number of Questions :	1
Number of Questions to be attempted :	1
Section Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	2549894635
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 1 Question Id : 25498941846 Question Type : TYPING TEST

एक बार की बात है, अकबर और बीरबल शिकार पर जा रहे थे। अभी कुछ समय हुआ था कि उन्हें एक हिरण दिखा। जल्दबाजी में तीर निकलते हुए अकबर अपने हाथ पर घाव लगा बैठा। अब हालात कुछ ऐसे थे कि अकबर बहुत दर्द में था और गुस्से में भी।

Restricted/ Unrestricted : Unrestricted

Paragraph Display : Yes

Evaluation Mode :

Keyboard Layout : Remington

Show Details Panel : Yes

Show Error Count : Yes

Highlight Correct or Incorrect Words : Yes

Allow Back Space : Yes

Show Back Space Count : Yes

Actual

Group Number :	2
Group Id :	2549892955
Group Maximum Duration :	20
Group Minimum Duration :	20
Show Attended Group? :	No
Edit Attended Group? :	No
Break time :	0
Group Marks :	0
Is this Group for Examiner? :	No

Hindi Typing Test

Section Id :	2549894595
Section Number :	1
Section type :	Typing Test
Mandatory or Optional :	Mandatory

Number of Questions :	1
Number of Questions to be attempted :	1
Section Marks :	0
Enable Mark as Answered Mark for Review and Clear Response :	Yes
Sub-Section Number :	1
Sub-Section Id :	2549894636
Question Shuffling Allowed :	No

Question Number : 2 Question Id : 25498941847 Question Type : TYPING TEST

हम अपना वक्त आलस्य और निरर्थक कामों में खर्च न करें। आलस्य दुनिया की सबसे भयंकर बीमारी है। आलस्य समस्त रोगों का मूल है। उसे साक्षात् मृत्यु कहें तो इसमें अत्युक्ति न होगी। अन्य बीमारियों की तुलना में यह तो शरीर सारे मनुष्य जीवन को ही खा डालता है। आलस्य से मनुष्य की क्रिया शक्ति कुण्ठित होने लगती है जिससे न केवल उसका शरीर शिथिल हो जाता है वरन उसके आर्थिक आय के साधन भी शिथिल हो जाते हैं। हमारी जीवन व्यवस्था के लिए समय रूपी बहुमूल्य उपहार परमात्मा ने दिया। इसका एक एक क्षण एक एक मोती के समान कीमती है जो इनका सदुपयोग करता है वह यहां सुख प्राप्त करता है, गंवाने वाले व्यक्ति के लिए वक्त ही मृत्यु है। वक्त के दुरुपयोग से जीवनी शक्ति का दुरुपयोग होता है और मनुष्य जल्दी ही काल के गाल में समा जाता है। इसलिये समय का उपयोग सदैव सुन्दर कामों में करें और इस स्वर्ग तुल्य संसार में सौ वर्ष तक सुखपूर्वक जियें। सारंश यह है कि वक्त का विभाजन करते वक्त आप स्वास्थ्य की बात को भी ध्यान में रखिये और उसके प्रति बेपरवाह मत हो जाइये। आप चाहें तो वक्त के सदुपयोग और व्यवस्थित कार्य प्रणाली द्वारा स्वयं ही स्वस्थ बने रह सकते हैं, कामों में इनका दुरुपयोग करके उसे आलस्य में भी खो सकते हैं, पर याद रखिये इस बात का ध्यान जितनी देर बाद में आयेगा अपने आपको उतना ही गयाबीता अनुभव करेंगे। यही बात उपार्जन के बारे में भी लागू होती है। शुभ और सुखी जीवन के लिये धन बहुत आवश्यक है। आर्थिक विषमता होने से दूसरे दैनिक काम भी कठिनाई से चल पाते हैं इसलिये धनोपार्जन के लिये भी समय का उपयोग कीजिये। समय के गर्भ में लक्ष्मी का अक्षय भण्डार भरा हुआ है पर उसे पाते वही हैं जो उसका सदुपयोग करते हैं। आपको जितना समय कार्यालय में काम करने होता है उतने से ही सन्तोष नहीं हो जाना चाहिये। अपने लिए कोई अन्य रूचिकर काम चुनकर अतिरिक्त आयअर्जन का प्रयत्न होना चाहिये। जापान के नागरिक ऐसा ही करते हैं। वे छोटी मशीनों या खिलौनों के पार्ट लाकर रख लेते हैं और अपने व्यावसायिक काम से फुरसत मिलने पर नियमित रूप से कुछ वक्त उसमें भी लगाते हैं। इस तरह वे अपनी बंधी आय के लगभग बराबर आय पार्ट टाइम में कर लेते हैं। उनकी खुशहाली को एक प्रमुख कारण वक्त का समुचित सदुपयोग ही कहा जा सकता है। वैयक्तिक सुखोपभोग और सांसारिक कामों में क्षमतावान होने के लिये आपका स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सुखी जीवन की प्रमुख शर्त है, अतः उन सभी नियमों को प्राथमिकता दीजिये जिनसे आपका शरीर और मन स्वस्थ रहता है। हमेशा सूर्योदय से कम से कम एक घण्टा पहले उठा कीजिये और शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ टहलने या व्यायाम आदि की व्यवस्था बना लीजिये। शरीर को शक्ति और पोषण प्रदान करने वाली प्रातःकाल की मुक्त वायु और रश्मियों से देह दिनभर स्फूर्ति और ताजगी से भी रहती है। इस अवसर को गंवाना रोग और दुर्बलता को निमन्त्रण देने से कम नहीं इससे शरीर सुस्त और निस्तेज हो जाता है। वे कोई काम आधी रूचि से करते हैं तदनुकूल सफलता भी आधी ही मिलती है।

Restricted/ Unrestricted : Unrestricted

Paragraph Display : Yes

Evaluation Mode :

Keyboard Layout : Remington

Show Details Panel : Yes

Show Error Count : Yes

Highlight Correct or Incorrect Words : Yes

Allow Back Space : Yes

Show Back Space Count : Yes